


दिमाग, दिल, हाथ




व्यक्तिगत अभ्यास



नए विचार, अवधारणाएं,
जानकारियां, विश्लेषण.



भावनाएं,
अपने
बारे में खोज,
परिवर्तित दृष्टिकोण.



कौशल, चीजें जो मैं
अलग ढंग से करूंगा/गी,
कार्यवाहियां जो मैं
करूंगा/गी.